

भारत का ध्वजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 24, 1978/कार्तिक 2, 1900
No. 309] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 1978/KARTIKA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधि सूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1978

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 508(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड-1 के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 192-सीमा-शुल्क सा. का. नि. सं. 485(अ), तारीख 1 अक्टूबर, 1978 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 3, 6, और 7 और उससे सम्बद्ध प्राविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
3	बेल्जियम के फ्रैंक	350
6	डुइते मार्क	22.30
7	डच गिल्डर	24.30

[सं. 199-सी.शु./फा. सं. 503/6/78-सी.शु.-6]

ए. बोर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1978

CUSTOMS

G. S. R. 508(E) .—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 192-Cus. G.S.R. No. 485(E) dated the 1st October, 1978, namely :—

In the Schedule below the said notification,—for Serial No. 3, 6 & 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
3	Belgian Francs	350
6	Doutsche Marks	22.30
7	Dutch Guilders	24.30

[No. 199-CUS./F. No. 503/6/78-CUS. VI]

A. BORDIA, Under Secy.